

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, 31 जुलाई को शहर को दुबारा खोलने की स्टेज 3 में दाखिल हो रही है

ब्रैम्पटन, ओन्टारियो (30 जुलाई, 2020) – ओन्टारियो सरकार (Government of Ontario) की कल की गई घोषणा के बाद, सिटी इस शुक्रवार, 31 जुलाई को ब्रैम्पटन में, अन्य कारोबारों और सेवाओं को सुरक्षित रूप से दुबारा खोलने के लिए तैयारी कर रही है। इस घोषणा में सरकार ने पील रीजन (Peel Region) को, स्टेज 3 की ओर बढ़ने की अनुमति दी है।

स्टेज 3 में सिटी की फेसिलिटीज, सेवाएं और प्रोग्रामिंग

पार्क्स, खेल के मैदान और आउटडोर फिटनेस उपकरण

सिटी के सभी खेल के मैदान, खेलने के अन्य स्थान और आउटडोर फिटनेस उपकरण, शुक्रवार, 31 जुलाई को दुबारा खुलेंगे। निवासियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी पूरे उपायों का पालन करने के बारे में बताने के लिए, पार्कों में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे।

प्रांत की [रिटर्न टू प्ले \(Return to Play\)](#) गाइडलाइंस के मुताबिक, आउटडोर स्पोर्ट्स फील्ड अब लीग्स के लिए गेमप्ले हेतु खुले हैं।

प्रोफेसर लेक (Professor's Lake) में, 10 अगस्त से शुरू करते हुए, डोंगी (कैनो) और नाव (कायक) किराए पर लेने के लिए उपलब्ध होंगी। विवरण, brampton.ca/recreation पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

रेक्रिएशन प्रोग्रामिंग

10 अगस्त के सप्ताह से शुरू करते हुए, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, गर्मियों में लोगों के पसंदीदा, फिटनेस इन द पार्क (Fitness in the Park) की बढ़ाई गई पेशकश को दुबारा शुरू करेगी। यह एक मुफ्त आउटडोर फिटनेस प्रोग्राम है। इस आउटडोर ड्रॉप-इन प्रोग्राम का विस्तार किया जा रहा है, ताकि निवासियों को अधिक गर्मी वाले महीनों के दौरान और उन क्षेत्रों में, जहां बड़े समूहों के लिए शारीरिक दूरी संभव है, सुरक्षित, खुली हवा वाली फिटनेस गतिविधियों में शामिल होने के लिए, अधिक विकल्प पेश किए जा सकें। बढ़ी हुई क्षमता के लिए दिन, स्थान और टाइमस्लॉट्स का विस्तार किया गया है। प्रोग्राम की पेशकशों में बूट कैंप (Boot Camp), मेडिटेशन (Meditation) और Zumba™ शामिल हैं। पूरा शेड्यूल brampton.ca/recreation पर उपलब्ध होगा।

इनडोर पूल्स, फिटनेस सुविधाएं और सीमित ड्रॉप-इन प्रोग्राम (केवल रिजर्वेशन के द्वारा), लेबर डे (Labour Day) के बाद जनता के लिए दुबारा खुलेंगे। सार्वजनिक तैराकियां, लेन में तैराकियां, एक्वाफिट और एक्वा थेरेपी, चुनिंदा इनडोर स्विमिंग पूल्स में, केवल रिजर्वेशन के द्वारा उपलब्ध होगी। ड्रॉप-इन प्रोग्रामों में शामिल हैं, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, डांस (प्रस्तुति और गैर-प्रस्तुति), STEM और स्केटिंग। फिटनेस सुविधाएं, ड्रॉप-इन कार्डियो और भार उठाने के व्यायाम वाले कमरे (वेट रूम) के प्रयोग के लिए दुबारा खुलेंगी।

रजिस्टर करने की जानकारी सहित, लेबर डे के बाद शुरू होने वाले सारे प्रोग्रामों और सेवाओं के बारे में अधिक जानकारी, brampton.ca/recreation पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

इस समय, सभी रेक्रिएशन सेंटर, जनता के लिए बुक किए बिना वाले प्रयोग के लिए बंद रहेंगे। सवालों के लिए, कृपया 311 पर फोन करें या reconnects@brampton.ca पर ईमेल करें।

त्यौहार और कार्यक्रम

सिटी के सभी त्यौहार, कार्यक्रम, प्रदर्शन और सिटी की फैसिलिटीज और द रोज़ (The Rose) सहित, परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर्स में कार्यक्रमों के लिए सामुदायिक कार्यक्रम परमिट, 7 सितम्बर, 2020, लेबर डे (Labour Day) तक रद्द रहेंगे।

ब्रैम्पटन लाइब्रेरी

अब वैध लाइब्रेरी कार्ड के साथ, चुनिंदा लाइब्रेरी ब्रांचों पर सुरक्षित की गई वस्तुओं (होल्ड्स) को, पगडंडी के किनारे से ले जाने के लिए रखा जा सकता है। निवासियों को ऑनलाइन bramptonlibrary.ca पर, सामग्रियां सुरक्षित करने और पांच लाइब्रेरी ब्रांचों की सूची में से चयन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो सक्रिय तौर पर यह सेवा प्रदान कर रही हैं। विवरण, bramptonlibrary.ca पर और ब्रैम्पटन लाइब्रेरी (Brampton Library) के Facebook, Twitter और Instagram पेजों, @bramptonlibrary पर उपलब्ध हैं। इस समय, ब्रैम्पटन लाइब्रेरी की सभी ब्रांचें, जनता के लिए बंद हैं।

स्टेज 3 के दौरान सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस और विनियम

सिटी फैसिलिटी के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपाय

समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए, ब्रैम्पटन के पार्को और इनडोर फैसिलिटीज के दुबारा खुलने पर, उनमें शारीरिक दूरी जैसे ठोस उपाय लागू किए जाएंगे। निवासियों के लिए, घर में उनके साथ न रहने वाले लोगों से हमेशा, कम से कम 2.0 मीटर (या छह फुट) दूरी कायम रखना जरूरी है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, जोखिमों का लगातार निरीक्षण करने के लिए पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) और ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस (Brampton Emergency Management Office) में अपने साझेदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। नियमित अपडेट्स के लिए www.brampton.ca/covid19 पर जाएं और किसी भी समय सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) को संपर्क करने के लिए, 311 पर फोन करें।

सामूहिक जनसमूह और शारीरिक दूरी

प्रांत को दुबारा खोलने की स्टेज 3 के हिस्से के तौर पर, अब 50 लोगों तक के इनडोर जनसमूह और 100 लोगों तक के आउटडोर जनसमूह की अनुमति है। ये जनसमूह, आपके घर के बाहर वाले किसी व्यक्ति से दो-मीटर की दूरी या 10-व्यक्तियों के सामाजिक दायरे जैसी, प्रांत की शारीरिक दूरी संबंधी शर्तों के पालन के अधीन रहेंगे।

लोगों पर किसी भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी पर एक-दूसरे से 2.0 मीटर से कम दूरी रखने पर पाबंदी लगाने वाले, सिटी के शारीरिक दूरी के, एमरजेंसी मेजर्स बाइ-लॉज लागू रहेंगे। शारीरिक दूरी के विनियम का पालन न करने वाले लोगों पर, उल्लंघन के प्रत्येक अपराध के लिए न्यूनतम \$500 का और अधिकतम \$100,000 तक का जुर्माना लग सकता है। नियमों का पालन न करने वाले लोगों की रिपोर्ट करने के लिए, निवासी 311 पर फोन कर सकते हैं।

जरूरी मास्क

कोविड-19 (COVID-19) को फैलने से रोकने में मदद के लिए, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी है। यह नियम 10 जुलाई, 2020 से लागू है। पील पब्लिक हेल्थ की सलाह के बाद, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) ने ब्रैम्पटन कोविड-19 संबंधी आवश्यक चेहरा ढकना (मैनडेटरी फेस कवर्गिंग्स) बाइ-लॉ (Brampton COVID-19 Mandatory Face Coverings By-law) पास किया था, जो 1 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगा। अधिक विवरणों के लिए, brampton.ca/masks पर जाएं।

शहर को दुबारा खोलने और बहाली योजना (रीओपनिंग एंड रिकवरी) के नतीजे

सिटी ने अपनी, शहर को दुबारा खोलने और बहाली योजना बारे सूचित करने में मदद के लिए 5 मई से 14 जून 2020 तक, इस बारे निवासियों का सर्वेक्षण किया था कि वे सेवाओं और प्रोग्रामिंग तक पहुंच कैसे चाहते हैं। कुल 4,500 जवाब प्राप्त हुए थे। मुख्य सुर्खियों में शामिल हैं:

- 87% उत्तरदाताओं ने, सिटी की फेसिलिटीज को दुबारा खोलने के दृष्टिकोण को प्राथमिकता दी, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई थी, चाहे इसमें देरी हो जाए।
- 88% उत्तरदाता सहमत थे कि सिटी को अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए काम करना चाहिए।
- 82% उत्तरदाताओं ने, सिटी की सेवाओं तक ऑनलाइन या फोन के द्वारा पहुंच को प्राथमिकता दी।

हवाले

“यह घोषणा उस प्रगति का नतीजा है, जो हमारे समुदाय ने पिछले माह की है। यह हमारे निवासियों, कारोबारियों, फ्रंटलाइन कर्मचारियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की, एक-दूसरे को सुरक्षित रखने में मेहनत और समर्पण को दर्शाती है। चूंकि हम इस शुक्रवार, प्रांत को दुबारा खोलने की स्टेज 3 की ओर बढ़ रहे हैं, मैं हर किसी को याद दिलाता हूँ कि हमारे लिए, कोविड-19 को फैलने से रोकने में मदद के लिए, हमारे प्रयासों को जारी रखना जरूरी है। हमारे लिए पील पब्लिक हेल्थ की सुरक्षा संबंधी गाइडलाइंस का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहना जरूरी है, ताकि हम इकट्ठे मिलकर, शहर को दुबारा खोलने और बहाली की ओर आगे बढ़ना जारी रख पाएं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“जो हमने अपने निवासियों, कारोबारियों और सामुदायिक समूहों से सुना है, उसे ध्यान में रखते हुए सिटी, स्टेज 3 में सेवाओं को पुनः शुरू करने और फैसिलिटीज को दुबारा खोलने का सुरक्षित और उपाय वाला दृष्टिकोण अपनाना जारी रख रही है। हमारे शहर की पूरी तरह बहाली और इसे दुबारा खोलने में हम सभी भूमिका निभाते हैं। मैं हमारे निवासियों को सलाह देता हूँ कि वे गैर-मेडिकल मास्क पहनकर, शारीरिक दूरी कायम रखकर, बार-बार अपने हाथ धोकर और यदि जरूरत हो, तो टेस्ट करवाकर अपनी भूमिका निभाना जारी रखें।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; लीड, मेयर्स रीओपनिंग एंड रिकवरी वर्किंग ग्रुप, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“कोविड-19 के दौरान हमारी पूरी प्रतिक्रिया में, सिटी ने सेवाओं और प्रोग्राम प्रदान करने के नए तरीके पेश किए हैं, जो निवासियों, कारोबारियों और समुदाय के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक हैं। चूंकि हम स्टेज 3 में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए बढ़ाए गए सुरक्षा उपाय लागू रहेंगे। हम कारोबार करते हुए सुरक्षा के नए और प्रगतिशील तरीके ढूंढना जारी रखेंगे, ताकि हम अपनी सिटी को दुबारा खोलने और बहाली की ओर आगे बढ़ते रहने को सुनिश्चित कर पाएं।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca